



कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Set up by Ministry of Textiles, Govt of India)

Registered Office: Shree Jee Complex, Shop No T3, Sharma Market, Harola, NOIDA, (U.P.)

Working Office: 2nd Floor, Rajiv Gandhi Handicrafts Bhawan, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi – 110001

Tel.: +91-11-23364716, 23364717, Website: www.cepc.co.in, E-Mail : info@cepc.co.in

Regional Office: Bypass Road, Hariyawan, Bhadohi, Uttar Pradesh - 221401

Regional Office: IICT Campus, Baghi Ali Mardan Khan, Nowshera, Srinagar - 190011 (J & K)

Website of Ministry of Textiles: www.texmin.nic.in

Siddh Nath Singh
Chairman

अपील

मेरे प्रिय निर्यातक साथियों,

मुझे पता है कि कोरोना की वजह से इस बार होली का त्यौहार थोड़ा फीका था लेकिन आज की जो स्थिति बनती जा रही है और पूरी दुनिया से जो खबरें आ रही हैं आप अच्छी तरह से अवगत हैं।

चीन, यूरोप अमेरिका में कहर बरपाने के बाद यह घातक कोरोना आपके अपने देश में बहुत तेजी से असर दिखा रहा है। चीन, यूरोप, अमेरिका जैसे विकसित देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसे नहीं रोक पाये हैं और हमारे 130 करोड़ की आबादी जहां की साधन अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है इस स्थिति में रोक नहीं पाये तो यह स्थिति बहुत भयावह हो सकती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संदेश में विशेष रूप से वर्णन कर चुके हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्य नाथ एवं सारा देश सशक्त एवं सहमित हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा सोचता हूं कि हमलोग एक निर्यातक एवं जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने जिम्मेदारी एवं इस महामारी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य, परिवार एवं आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी एवं बुनकर सबको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

अतः मैं आप सबसे विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करता हूं कि आगामी कम-से-कम 15 दिन तक अपने फैक्ट्री / कारखानों और अपने कार्यक्रम को स्थगित करते हुए अपने कार्यालय भी बंद रखें एवं पुनः आपसे निवेदन है कि जो आपके अधीन कर्मचारी / बुनकर गण हैं उन्हें सहायता के तौर पर कम से कम एक महीने की सहयोग राशि अवश्य प्रदान करने का कष्ट करें। क्योंकि यदि कर्मचारी और आपका समाज और देश, परिवार बचा रहेगा तो भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

इस संकट की घड़ी में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC), भारत सरकार एवं राज्य सरकारें निर्यातको की नुकसान के प्रति सजग, जागरूक एवं अवगत हैं तथा उसे हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हैं।

इन्हीं उपरोक्त भावनाओं के साथ मैं अपील करता हूं कि देश एवं समाज हित में अपने मजबूत निर्णय एवं कदम को बढ़ाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

आपका शुभेच्छु

सिद्ध नाथ सिंह

अध्यक्ष

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार